



भारत का राजपत्र The Gazette of India

28 JAN 1978

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1978/माघ 1, 1899

No 30]

NEW DELHI SATURDAY, JANUARY 21, 1978/MAGHA 1, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नियम

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी 1978

सा० का० नि० 36(अ) —खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये, कतिपय नियमों का प्रारूप, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (1954 का 37) की धारा 23 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 23(अ) तारीख 9 जनवरी, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) में पृष्ठ 45-46 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से, जिनके उन नियमों से प्रभावित होने की सम्भावना थी, आपत्तियां या सुझाव 19 जनवरी, 1978 तक मांगे गये थे

और उक्त राजपत्र जनता का 9 जनवरी, 1978 का उपखण्ड करा दिया गया था,

और उक्त अधिसूचना की बाबत जनता से कोई भी आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (प्रथम संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख का प्रवृत्त होंगे।

2 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में, नियम 44 के तहत परन्तु म, तीन मिनट की अवधि के लिये शब्दों का स्थान पर, 30 अप्रैल 1978 तक, जिनमें यह तारीख भी सम्मिलित है, के लिये शब्द, अक्षर और अक्षर रखे जायेंगे।

[म० पी० 15014/8/77 पी० एच० (एफ० एड एन)]

नरेन्द्र नाथ बाहग, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 1978

G.S.R. 36(E) —Whereas certain draft rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 were published as required by sub-section (1) of section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) at pages 45-46 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) under the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R.

23(E) dated 9th January, 1978 inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby till 19th January, 1978 ;

AND whereas the said gazette was made available to the public on 9th January, 1978 ;

AND whereas no objections or suggestions have been received from the public on the said draft notification ;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely ;

RULES

1. (i) These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (First Amendment) Rules, 1978.
(ii) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette
2. In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 44, in the third proviso, for the words, "for a period of 3 months" the words, figures and letters, "upto and including the 30th day of April, 1978" shall be substituted.

[No. P. 15014/8/77-PH (F&N)]

N. N. VOHRA, Jt. Secy.